



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1046]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

का.आ. 1180(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752-B के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक - जीरापुर से सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर - रोड का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जीरापुर जिला राजगढ़ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले राजगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752-B के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक जीरापुर से सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर - रोड के निर्माण के लिए भूखण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: राजगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जीरापुर					
गांव का नाम: धतरावदा					
1	165	निजी	सिंचित	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
2	166	निजी	सिंचित	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
3	500	निजी	सिंचित	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
4	504	निजी	सिंचित	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
5	505	निजी	सिंचित	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
6	506	निजी	सिंचित	0.1130000(हेक्टेयर)	0.1130000
7	507	निजी	सिंचित	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
गांव का नाम: हरीपुरा					
1	10	निजी	असिंचित	0.0810000(हेक्टेयर)	0.0810000
2	11/1/1/1/8	निजी	असिंचित	0.3120000(हेक्टेयर)	0.3120000
3	11/1/1/1/9	निजी	असिंचित	0.3120000(हेक्टेयर)	0.3120000
4	11/1/2	निजी	असिंचित	0.2810000(हेक्टेयर)	0.2810000
5	11/11	निजी	सिंचित	0.3250000(हेक्टेयर)	0.3250000
6	11/12	निजी	सिंचित	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
7	11/3/2	निजी	असिंचित	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
8	11/4	निजी	सिंचित	0.5650000(हेक्टेयर)	0.5650000
9	11/5/1	निजी	असिंचित	0.0770000(हेक्टेयर)	0.0770000
10	11/5/2	निजी	सिंचित	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
11	12/1/1/1	निजी	असिंचित	0.3620000(हेक्टेयर)	0.3620000
12	12/1/2/1	निजी	असिंचित	0.1930000(हेक्टेयर)	0.1930000

13	12/2	निजी	असिंचित	0.3280000(हेक्टेयर)	0.3280000
14	13/2	निजी	असिंचित	0.0840000(हेक्टेयर)	0.0840000
15	14/2	निजी	असिंचित	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
16	15/2	निजी	सिंचित	0.0190000(हेक्टेयर)	0.0190000
17	19/1	निजी	असिंचित	0.0380000(हेक्टेयर)	0.0380000
18	20/1	निजी	असिंचित	0.2730000(हेक्टेयर)	0.2730000
19	20/2	निजी	असिंचित	0.3280000(हेक्टेयर)	0.3280000
20	21/1	निजी	सिंचित	0.0670000(हेक्टेयर)	0.0670000
21	7	निजी	सिंचित	0.3450000(हेक्टेयर)	0.3450000
22	8/1	निजी	सिंचित	0.3560000(हेक्टेयर)	0.3560000
23	9/1	निजी	सिंचित	0.2490000(हेक्टेयर)	0.2490000
कुल				4.8460	4.8460

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2019

S.O. 1180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway **no. 752-B** in the stretch of land from Km **0+000 to 40+500** km. to **Jirapur to Susner MP-RJ-Border-Road** in the district of **Rajgarh**, in the state of **MADHYA PRADESH**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (Revenue) and land Acquisition Officer **Jirapur**, District **Rajgarh**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. **0+000 to 40+500** km. to. **Jirapur to Susner MP-RJ-Border-Road** National Highway No- **752-B** in the district of **Rajgarh** in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH		District: RAJGARH			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jirapur					
Village: Dhatraoda					
1	165	Private	Irrigated	0.0260000(Hectare)	0.0260000
2	166	Private	Irrigated	0.0060000(Hectare)	0.0060000
3	500	Private	Irrigated	0.0080000(Hectare)	0.0080000
4	504	Private	Irrigated	0.0050000(Hectare)	0.0050000
5	505	Private	Irrigated	0.0120000(Hectare)	0.0120000
6	506	Private	Irrigated	0.1130000(Hectare)	0.1130000
7	507	Private	Irrigated	0.0090000(Hectare)	0.0090000
Village: Haripura					
1	10	Private	Non Irrigated	0.0810000(Hectare)	0.0810000
2	11/1/1/8	Private	Non Irrigated	0.3120000(Hectare)	0.3120000
3	11/1/1/9	Private	Non Irrigated	0.3120000(Hectare)	0.3120000
4	11/1/2	Private	Non Irrigated	0.2810000(Hectare)	0.2810000
5	11/11	Private	irrigated	0.3250000(Hectare)	0.3250000
6	11/12	Private	Irrigated	0.0090000(Hectare)	0.0090000
7	11/3/2	Private	Non Irrigated	0.0030000(Hectare)	0.0030000
8	11/4	Private	Irrigated	0.5650000(Hectare)	0.5650000
9	11/5/1	Private	Non Irrigated	0.0770000(Hectare)	0.0770000
10	11/5/2	Private	Irrigated	0.0430000(Hectare)	0.0430000
11	12/1/1/1	Private	Non Irrigated	0.3620000(Hectare)	0.3620000
12	12/1/2/1	Private	Non Irrigated	0.1930000(Hectare)	0.1930000
13	12/2	Private	Non Irrigated	0.3280000(Hectare)	0.3280000
14	13/2	Private	Non Irrigated	0.0840000(Hectare)	0.0840000
15	14/2	Private	Non Irrigated	0.0170000(Hectare)	0.0170000
16	15/2	Private	Irrigated	0.0190000(Hectare)	0.0190000
17	19/1	Private	Non Irrigated	0.0380000(Hectare)	0.0380000
18	20/1	Private	Non Irrigated	0.2730000(Hectare)	0.2730000
19	20/2	Private	Non Irrigated	0.3280000(Hectare)	0.3280000
20	21/1	Private	Irrigated	0.0670000(Hectare)	0.0670000
21	7	Private	Irrigated	0.3450000(Hectare)	0.3450000
22	8/1	Private	Irrigated	0.3560000(Hectare)	0.3560000
23	9/1	Private	Irrigated	0.2490000(Hectare)	0.2490000
Total				4.8460	4.8460

[F. No. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A1]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.